

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय

लखनऊ परिसर, लखनऊ

सूचना- 60

दिनांक-21.08.2026

विषय: राष्ट्रीय खेल दिवस-2026 के अन्तर्गत विभिन्न खेल एवं फिटनेस गतिविधियों में सहभागिता के सम्बन्ध में।

परिसर के समस्त छात्र-छात्राओं, प्राध्यापकों, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) के स्वयंसेवकों को सूचित किया जाता है कि भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के तहत 'फिट इंडिया मूवमेंट', "खेलेगा भारत, जीतेगा भारत", थीम के साथ दिनांक 28 से 30 अगस्त, 2026 तक देशव्यापी राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 आयोजित किया जा रहा है।

इस वर्ष अभियान का विषय "खेलेगा भारत, जीतेगा भारत" है तथा यह अभियान "श्रद्धांजलि (Tribute), खेल (Play) एवं गतिशीलता (Move)" के तीन प्रमुख स्तम्भों पर आधारित है। अभियान का उद्देश्य विद्यार्थियों एवं युवाओं में खेल, नियमित शारीरिक गतिविधि, स्वस्थ जीवनशैली, अनुशासन, टीम भावना एवं सामाजिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना है।

इसी क्रम में परिसर में दिनांक 28 से 30 अगस्त, 2026 के मध्य निम्नलिखित गतिविधियाँ आयोजित की जाएंगी-

1. खेल प्रतियोगिताएँ एवं फिटनेस गतिविधियाँ।
2. "एक घंटा खेल के मैदान में" अभियान के अन्तर्गत सामूहिक खेल एवं शारीरिक गतिविधियाँ।
3. खेल एवं फिटनेस सम्बन्धी जागरूकता कार्यक्रम।
4. Sundays on Cycle के विशेष संस्करण में सहभागिता।
5. विद्यार्थियों एवं NSS स्वयंसेवकों द्वारा खेल, फिटनेस एवं स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जन-जागरूकता गतिविधियाँ।

अतः परिसर के समस्त छात्र-छात्राओं, प्राध्यापकों, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं NSS स्वयंसेवकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अधिकतम संख्या में सक्रिय सहभागिता करते हुए राष्ट्रीय खेल दिवस-2026 को सफल बनाएं तथा नियमित खेल एवं शारीरिक गतिविधियों को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने हेतु अन्य लोगों को भी प्रेरित करें।

आवश्यक निर्देश

- कार्यक्रम की दिवसवार कार्ययोजना, कार्यक्रम स्थल एवं आवश्यक दिशा-निर्देश अधोहस्ताक्षरी से परामर्श एवं समन्वय स्थापित करते हुए डॉ. रुद्रनारायण नरसिंह मिश्र, कार्यक्रम प्रभारी, राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) द्वारा समय-समय पर प्रेषित किए जाएंगे। उक्त कार्यक्रमों के समन्वय, संचालन, पर्यवेक्षण एवं समस्त व्यवस्थाओं की सम्पूर्ण जिम्मेदारी डॉ. रुद्रनारायण नरसिंह मिश्र की होगी।
- सभी प्रतिभागी NSS कार्यक्रम प्रभारी द्वारा प्रेषित दिवसवार कार्ययोजना एवं निर्देशों के अनुसार निर्धारित समय एवं स्थान पर अनुशासनपूर्वक उपस्थित होकर कार्यक्रमों में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करेंगे।
- खेल एवं फिटनेस गतिविधियों में सहभागिता करते समय सुरक्षा, समावेशिता एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी सावधानियों का विशेष ध्यान रखा जाए।
- NSS स्वयंसेवक अपने परिवार, मित्रों एवं स्थानीय समुदाय को भी खेल एवं नियमित शारीरिक गतिविधि के लिए प्रेरित करें।
- आयोजित गतिविधियों के स्पष्ट फोटोग्राफ, वीडियो, उपस्थिति एवं संक्षिप्त विवरण सुरक्षित रखे जाएँ।

- कार्यक्रम के आयोजन से पूर्व सम्बन्धित गतिविधि को My Bharat Portal पर Event Create कर दर्ज किया जाएगा तथा कार्यक्रम के उपरान्त निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार रिपोर्ट/विवरण प्रेषित किया जाएगा।

अतः सभी से अपेक्षा की जाती है कि वे खेलें, स्वस्थ रहें और स्वस्थ समाज के निर्माण में योगदान दें तथा राष्ट्रीय खेल दिवस-2026 के इस अभियान को सफल बनाने में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करें।

“खेलेगा भारत, जीतेगा भारत”

“खेलें – फिट रहें – स्वस्थ रहें”


(प्रो. सर्वनारायण झा)
निदेशक

प्रतिलिपि-

1. सभी छात्रों को सूचनार्थ।
2. परिसर मुख्यभवन तथा महिला एवं पुरुष छात्रावास के सूचनापट्ट।
3. कार्यालय सूचना संचिका।
4. एनएसएस, लखनऊ परिसर के सभी कार्यक्रम अधिकारियों को सूचनार्थ एवं कार्यार्थ।
5. आईक्यूएसी समन्वयक प्रति।
6. निदेशक कार्यालय प्रति।
7. वेबसाइट पर अपलोड हेतु।


निदेशक